



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 2003 (फाल्गुन 10, 1924)

No. 9]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 2003 (PHALGUNA 10, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2003

सं. ए-12011/2/98-प्रशा.-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8 जनवरी, 2003 के का. शा. सं. 20/2/98-सी.एस.-II के अनुसरण में, राष्ट्रपति, के. स. आ. से. के निम्नलिखित ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) आशुलिपिकों को दिनांक 1 जनवरी से 30 जून, 2003 तक अथवा चयन सूची अधिकारियों के उपलब्ध होने तक अथवा आगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर के. स. आ. से. के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव) में नियुक्त करते हैं :-

1. श्री के. के. शर्मा

2. श्री बी. एस. घुम्नन

2. उपर्युक्त अधिकारियों को प्रधान निजी सचिव के पद पर उक्त पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा के. स. आ. से. के निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का हक नहीं मिल जाएगा।

3. इसे इस कार्यालय की दिनांक 8 अक्टूबर 2002 की अधिसूचना सं. ए-19016/1/02-प्रशा.-1 तथा दिनांक 2 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना सं. ए-12011/2/98-प्रशा.-1 के क्रम में जारी किया जाता है।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 4 फरवरी 2003

सं. ए-35018/2/2002-प्रशा.-2--अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग एतद्वारा संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी, श्री एस. पी. डे को दिनांक 31.01.2003 (पूर्वाह्न) से 30.01.2006 (अपराह्न) तक की 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक (गोपनीय) (ग्रुप 'क' राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान श्री एस. पी. डे का वेतन कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5-1-1994 के समय-समय पर यथा संशोधित का. जा. सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II) में निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)
कृते अध्यक्ष

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/265/ए-19036/16/78-प्रशा.-5---श्री एस. ए. एच. नकवी ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 अपराह्न से पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

दिनांक 4 फरवरी 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/266/3/55/2002-प्रशा.-5---राष्ट्रपति ने श्री अरुण गोयल, सहायक अधिवक्ता, प्रसार, भारती, महानिदेशालय, नई दिल्ली को 29.10.2002 पूर्वाह्न से 28.10.2005 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति आधार पर वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक के रूप में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डीपी/एडी.5/2003/347/3/8/2001-प्रशा.-5---श्री एम. पांडियाराजन ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 दिसम्बर, 2002 अपराह्न से पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डीपी/एडी.5/2003/493/ए-20023/6/75-प्रशा.-5---श्री गोपाल सरन ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31.01.2003 (अपराह्न) से उप-विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एसीबी, मुम्बई के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डीपी/एडी.5/2003/515/3/61/2002-प्रशा.-5---निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने श्री जी. कुप्पुस्वामी, अपराध सहायक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 16.12.2002 (पूर्वाह्न) से कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डीपी/एडी.5/2003/516/3/2/2003-प्रशा.-5---निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने श्री राकेश कुमार, अपराध सहायक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 04.12.2002 (पूर्वाह्न) से कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डीपी/एडी.5/2003/517/वी-5/71-प्रशा.-5---श्री वी. एस. प्रसाद ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31.01.2003 (अपराह्न) से वरिष्ठ लोक अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एचडी, पटना के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 फरवरी 2003

सं. ए-छ:-1/2002-कार्मिक-1---राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में, सहायक कमांडेन्ट के पद पर वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500/- में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की समस्त नफरी में अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सौहार्द नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जॉइनिंग की तारीख
1	2	3
1.	श्री मनोज कुमार (ओबीसी)	28.12.2002 (अपराह्न)
2.	श्री प्रेम कुमार (एस.सी.)	--तदैव--
3.	श्री विकास चन्द्रा	--तदैव--
4.	श्री टी. थेंखन लाल (एस.टी.)	--तदैव--
5.	श्री मूल चन्द (ओबीसी)	--तदैव--
6.	श्री किशोर नागदेव एन. (एस.टी.)	--तदैव--
7.	श्री निशान्त चौधरी (ओबीसी)	--तदैव--
8.	श्री नरेन्द्र	--तदैव--

1	2	3
9.	श्री सुधीर कुमार चौहान	28.12.2002 (अपराह)
10.	श्री चौधरी महेश कुमार (एस.सी.)	--तदैव--
11.	मिस अंजना यादव	--तदैव--
12.	श्री मुकुन्द मोहन	--तदैव--
13.	श्री नरेन्द्र कुमार (ओबीसी)	--तदैव--
14.	श्री राजेश (ओबीसी)	--तदैव--
15.	श्री सुमित कुमार	--तदैव--
16.	श्री मयंक तिवारी	--तदैव--
17.	श्री अजीत भाटी (ओबीसी)	--तदैव--
18.	श्री रजनीश कुमार (ओबीसी)	--तदैव--
19.	श्री मनोज कुमार सोनागा (एस.सी.)	--तदैव--
20.	श्री विक्रम सिंह (ओबीसी)	--तदैव--
21.	श्री विशान सिंह (ओबीसी)	--तदैव--
22.	श्री पुष्प मिसौ (एस.टी.)	--तदैव--
23.	श्री रामभर्लिन फिलिप (एस.टी.)	--तदैव--
24.	श्री राजेश चौहान	--तदैव--
25.	श्री अशोक चन्दर (एस.सी.)	--तदैव--
26.	श्री चेंगिन हेंगसिम (एस.टी.)	--तदैव--
27.	श्री नवीन चन्द्रा (एस.सी.)	--तदैव--
28.	मिस संतोष कुमारी ढाका (ओबीसी)	--तदैव--
29.	श्री राहुल धर्मवीर सेठ	--तदैव--
30.	श्री टी. थंखनलाल (एस.टी.)	--तदैव--
31.	श्री मिचैल वनलालरौट (एस.टी.)	--तदैव--
32.	श्री विनोद कुमार कनौजिया (ओबीसी)	--तदैव--
33.	श्री संजीव कुमार रातरु (एस.सी.)	--तदैव--
34.	श्री आदित्य मिश्रा	--तदैव--
35.	श्री अलोक अवस्थी	--तदैव--
36.	श्री देवेन्द्र सिंह कसवा (ओबीसी)	--तदैव--
37.	श्री कन्हाईया सिंह	--तदैव--
38.	श्री अजित सिंह नेगी	--तदैव--
39.	श्री आशीष दिक्षित	--तदैव--
40.	श्री मुख्तियार सिंह	--तदैव--
41.	श्री अंगम नरेश सिंह (ओबीसी)	--तदैव--

1	2	3
42.	श्री अनुराग कुमार सिंह (ओबीसी)	28.12.2002 (अपराह)
43.	श्री सतीश कुमार मलिक	--तदैव--
44.	श्री हरि ओम सागर (ओबीसी)	--तदैव--
45.	श्री मौ. यासीर अब्बासी	--तदैव--
46.	श्री राम चन्द्रा (ओबीसी)	--तदैव--
47.	श्री विपिन यादव (ओबीसी)	--तदैव--
48.	मिस अपर्णा आर. एस.	--तदैव--
49.	श्री संतोष कुमार	--तदैव--
50.	श्री गोपाल कुमार गुप्ता (ओबीसी)	--तदैव--
51.	श्री अरविन्द पी. आनन्द (एस.सी.)	--तदैव--
52.	श्री जी. सुरेश बाबू (एस.सी.)	--तदैव--
53.	श्री सोराब भटनागर	--तदैव--
54.	श्री राम प्रसाद दौलिया (एस.सी.)	--तदैव--
55.	श्री अनिल कुमार (ओबीसी)	--तदैव--
56.	श्री मुकेश कुमार सिंह (ओबीसी)	--तदैव--
57.	श्री विश्व दीप सिंह	--तदैव--
58.	श्री नैजाम एस. (ओबीसी)	--तदैव--
59.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	--तदैव--
60.	श्री रामअवतार भालोथिया (ओबीसी)	--तदैव--
61.	श्री ब्रिजेन्द्र कुमार	--तदैव--
62.	मिस उषा गुरुंग	--तदैव--
63.	श्री टी. मंगमुनलाल पाईते (एस.टी.)	--तदैव--
64.	श्री अलोक कुमार सिंह	--तदैव--
65.	श्री रवि मिश्रा	--तदैव--
66.	श्री संजीव कुमार सिंह (ओबीसी)	--तदैव--
67.	श्री अखिलेश कुमार सिंह (ओबीसी)	--तदैव--
68.	श्री अमित सिन्हा	--तदैव--
69.	श्री कैलाश चन्दर अहलावाद (एस.सी.)	--तदैव--
70.	श्री बिमल राज सी. (ओबीसी)	--तदैव--
71.	श्री नरेन्द्र सिंह	--तदैव--
72.	श्री अनिल किशोर यादव (ओबीसी)	--तदैव--
73.	श्री कैलाश चन्द रामोला	--तदैव--
74.	श्री रविन्द्र कुमार	--तदैव--

1	2	3
75.	श्री सतेंगन एल. फिमते (एस.टी.)	28.12.2002 (अपराह)
76.	श्री पंकज कुमार सिंह	--तदैव--
77.	श्री अरविन्द विपाठी	06.01.2003 (अपराह)
78.	श्री दीपक कुमार	09.01.2003 (अपराह)
79.	श्री विजेन्द्र सिंह भाटी (ओबीसी)	--तदैव--
80.	श्री वांखेयम समानन्दा सिंह (ओबीसी)	--तदैव--
81.	श्री रण विजय मिश्रा	--तदैव--
82.	श्री भवानी प्रताप यादव (ओबीसी)	--तदैव--
83.	श्री दुर्गा राम (एस.सी.)	11.01.2003 (पूर्वाह)
84.	श्री मुकेश मिह यादव (ओबीसी)	17.01.2003 (पूर्वाह)
85.	श्री प्रदीप कुमार (एस.सी.)	19.01.2003 (अपराह)
86.	श्री राजीव रंजन झा	21.01.2003 (अपराह)
87.	श्री कुनाल	25.01.2003 (अपराह)

मान सिंह रावत
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-I)

दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. ऑ. टी. 1673/81-कार्मिक-एक--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने सम्बन्धी नोटिस दिनांक 28.09.2002 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री निहाल सिंह, उप कमान्डेन्ट (इरला-1946) 55 ब्रिगलियन, के. रि. पु. बल ने दिनांक 01.01.2003 को पूर्वाह में पद का कार्यभार त्याग दिया है।

मान सिंह रावत
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा)
पश्चिम बंगाल
(स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग)

कोलकाता-700001, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. स्था.ले.प. (प्र.)/पेंशन/म.द.म./204/57/5617--कार्यालय महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के श्री म. मुसलिम, लेखा परीक्षा अधिकारी ने दिनांक 31.01.2003 (अपराह) को अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने के कारण सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

बी. के. बनिक
उप-महालेखाकार (स्थानीय निकाय)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. डब्ल्यू.एम.-1/2386-2389/स्थापना/197--महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-1 को इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ विभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतनमान रुपये 7,500-250-12,000/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ विभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिवीजन/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिवीजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

क्रमांक	नाम
1.	श्री गोविन्द पद घोष
2.	श्री अधीर कुमार घोष
3.	श्री विश्वनाथ पाल-I
4.	श्री असीम कुमार हालदार
5.	श्री सीतानाथ चक्रवर्ती
6.	श्री अशोक कुमार चट्टार्जी
7.	श्री आशिष कुमार चट्टार्जी
8.	मनजुर आलम

उपरोक्त अधिकारियों के प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु वरिष्ठ विभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अन्दर एफ.आर. 22(1)(क)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

ह./- अपठनीय
उपमहालेखाकार (लेखा)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) राजस्थान

जयपुर, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. प्रशा.-1/ले.प./पी.13044/2003--प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित लेखा परीक्षा अधिकारियों को वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- में वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	दिनेश चन्द गर्ग	01.01.2003
2.	मूल चन्द गर्ग	01.01.2003

1	2	3
3.	पारस मल सोनी	02.01.2003
4.	सत्येन्द्र कुमार माहेश्वरी	01.01.2003
5.	राम निवास टेलर	01.01.2003
6.	गोपाल लाल गुर्जर	01.01.2003

ह./- अपठनीय
लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशा.-I)

सं. प्रशा.-I/ले.प./पी.13044/2003--प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- में लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
	सर्व/श्री	
1.	मुरली धर भाटिया	11.10.2002 (अपराह)
2.	जल सिंह दहिया (अ.जा.)	17.10.2002
3.	कैलाश प्रसाद शर्मा-I	16.10.2002
4.	गणपत लाल कुलदीप (अ.जा.)	21.10.2002
5.	जगदीश राम मीणा (अ.ज.जा.)	17.10.2002
6.	बंसी धर व्यास	16.10.2002
7.	भीम सैन	01.01.2003
8.	कुलदीप कुमार सोरल	01.01.2003
9.	चन्दगी राम जाखड-II	01.01.2003
10.	सुरेश चन्द्र माथुर-II	01.01.2003
11.	जगदीश नारायण गुप्ता	01.01.2003
12.	विष्णु दत्त शर्मा	03.02.2003
13.	विजय कुमार जैन	03.02.2003

ह./- अपठनीय
लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशा.-I)

सं. प्रशा.-I/ले.प./पी.13044/2003--प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को वेतनमान रु. 6,500-200-10,000/- में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के

सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
	सर्व/श्री	
1.	राज कुमार शर्मा	21.10.2002
2.	हेमन्त कुमार कुलकर्णी	21.10.2002
3.	हरीश कुमार जेसवानी	21.10.2002
4.	सेडु राम कोली (अ.जा.)	21.10.2002
5.	सीता राम शर्मा	21.10.2002
6.	गजेन्द्र सिंह चौहान	21.10.2002
7.	अशोक कुमार शर्मा-I	21.10.2002
8.	सुशील कुमार बैरवा (अ.जा.)	05.12.2002
9.	शैलेन्द्र कुमार शर्मा	01.01.2003
10.	मुकेश कुमार विजय	01.01.2003
11.	कपूर चन्द (अ.जा.)	01.01.2003
12.	कैलाश चन्द शर्मा-I	01.01.2003
13.	गौरी शंकर चुग	01.01.2003
14.	नरेन्द्र नाथ भार्गव	03.02.2003

ह./- अपठनीय
लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशा.-I)

रक्षा लेखा विभाग
(कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. प्रशा.-I/1467/5/I (जी)--भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके जन्म की तारीख के नीचे दिखाई गई तारीख को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर रक्षा लेखा विभाग के संग्रहाबल से हटा दिया गया है और तदनुसार प्रत्येक के समक्ष दिखाई गई तारीख से पेंशन स्थापना के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है :-

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख	पेंशन स्थापना को सेवानिवृत्ति की तारीख	पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित किए जाने की तारीख
	सर्व/श्री			
1.	एस. एम. बालकृष्ण	22.01.1943	31.01.2003	01.02.2003
2.	टी. एस. शिशोदिया	04.01.1943	31.01.2003	01.02.2003
3.	मंगल प्रसाद	10.01.1943	31.01.2003	01.02.2003

कुप्पास्वामी
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशा.)

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय
नई दिल्ली-1, दिनांक 6 जनवरी 2003

सं. ए-19018/393/79--प्रशा.(राज.)राष्ट्रपति लघु उद्योग सेवा संस्थान, लुधियाना में उप-निदेशक (यांत्रिकी), श्री रंजीत सिंह को रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, श्रीनगर (कैम्प, जम्मू) में निदेशक (यांत्रिकी) स्थानापन्न आवास के पद पर दिनांक 31.10.2002 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप-निदेशक (प्रशा.)

शोधला और खान मंत्रालय
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. ए-32013/1-भूवैज्ञानिक(वरि.)/2002-19ए--राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) को भूवैज्ञानिक (वरिष्ठ) के रूप में पदोन्नति पर इसी विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावी नियुक्त करते हैं :

क्रम सं.	नाम	कार्य-ग्रहण की तिथि
1.	श्री डी. पी. शर्मा	25.10.2002 (अपराह्न)
2.	श्री सनत कु. भट्टाचार्या	25.10.2002 (अपराह्न)
3.	श्रीमती सुमित्रा सेन	21.11.2002 (पूर्वाह्न)
4.	श्री बी. एल. श्रीवास्तव	25.10.2002 (अपराह्न)
5.	श्री एस. आर. शमशाद	25.10.2002 (अपराह्न)
6.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	25.10.2002 (अपराह्न)
7.	श्री के. सी. बंदोपाध्याय	25.10.2002 (अपराह्न)
8.	श्री डी. सुन्दरवनन्	20.11.2002 (पूर्वाह्न)
9.	श्री डी. डब्ल्यू. जोशी	25.10.2002 (अपराह्न)
10.	श्री बी. के. चित्तोड़ा	25.10.2002 (अपराह्न)
11.	श्री डी. डी. भट्टाचार्या	25.10.2002 (अपराह्न)
12.	श्री मोहम्मद फहोम	25.10.2002 (अपराह्न)

के. पी. गौतम
निदेशक (कार्मिक)
कृते महानिदेशक

कोलकाता-700016, दिनांक 10 फरवरी 2003

शुद्धि-पत्र

सं. 502/बी/ए-19011 (1-पी.पी.सी.)/92/19ए--इस कार्यालय के दिनांक 31.08.2001 की अधिसूचना सं. 2982 बी-2994 बी/ए-19011 (1-पी.पी.सी.)/92/19ए में आंशिक संशोधन करते हुए उल्लेख किया जाता है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक महोदय द्वारा विधिवत् स्वीकृत डॉ. पार्थ प्रतिम चक्रवर्ती के त्यागपत्र की तिथि को, जिन्हें आई.एस.एम., धनबाद में सहायक प्रोफेसर के रूप में स्थाई नियुक्ति के आधार पर कार्यग्रहण करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से कार्यमुक्त किया गया था, 31.03.2000 (पूर्वाह्न), के स्थान पर 03.04.2000 (अपराह्न) पढ़ा जाए। अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

खान विभाग
(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. ए-19012/370/2003-स्था.ए.--विभागीय पदोन्नति समिति को सिफारिश पर श्री पी. पी. हिवरकर, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एम.ई.) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 27.1.2003 (अपराह्न) से सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. के. बातव
प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए-19011/224/2002-स्था.ए.पी.पी.--श्री एस. बी. एस. चौहान, मुख्य खनन भूवैज्ञानिक, भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.1.2003 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

श्रीमती एस. एम. मंगरूलकर
सहायक प्रशासन अधिकारी

सं. ए-19011/483/2002-स्था.ए.पी.पी.--श्री एस. टी. अरसन, उप खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.1.2003 (अपराह्न) में कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

श्रीमती एस. एम. मंगरूलकर
सहायक प्रशासन अधिकारी

नागपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. ए-31013/29/98-स्था.ए.--भारत सरकार, कोयला और खान मंत्रालय द्वारा भारतीय खान ब्यूरो में अधीक्षक खनन भूवैज्ञानिक के पद पर स्थायीकरण से संबंधित राष्ट्रपति का अनुमोदन प्रदान करने के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारी की उनके नाम के सामने दी गयी तारीख से स्थायी किया जाता है।

1. श्री एम. एस. मूर्ति--अधीक्षक खनन भूवैज्ञानिक--23.11.1999

एस. चन्द्रमोली
कार्यालय अध्यक्ष

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
(फिल्म प्रभाग)

मुम्बई-400026, दिनांक 5 फरवरी 2003

शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी 2003 सं. ए-12025/1/2000-स्थापना-1 के संदर्भ में।

निम्नांकित के स्थान पर :

विभागीय पदोन्नति समिति के सिफारिशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने श्री एस. एन. बहीरत को दिनांक 18 नवम्बर, 2002 (पूर्वाह्न) से अगला आदेश मिलने तक रु. 7450-225-11,500 के वेतनमान में रु. 8900/- प्रति माह वेतनमान पर फिल्म प्रभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है। उनकी तैनाती फिल्म प्रभाग, नई दिल्ली में की गई है।

इसे इस प्रकार पढ़ा जाए :

विभागीय पदोन्नति समिति के सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजपत्रित वर्ग 'ख' के अन्तर्गत श्री एस. एन. बहीरत की नियुक्ति फिल्म प्रभाग, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रतिमाह वेतन रु. 8,900/- पर रु. 6500-150-10,500 के वेतनमान में जो उनके द्वारा पूर्वधारित पद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के समरूप रहेगा जिस पर मूल विभाग, दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट में कार्यरत थे, उन्हें मूल वेतन के अलावा 10 फीसदी प्रतिनियुक्ति भत्ते सहित अधिकतम प्रतिमाह रु. 1000/- जो कि डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय आदेश सं. 2/29/91 सिबंदी (वेतन-II) दिनांक 5.1.1994 तथा 2/8/97 सिबंदी (वेतन-II) दिनांक 12.11.1998 में समाविष्ट निर्देशानुसार है, दिनांक 18.11.2002 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, इस आधार पर नियुक्ति की जाती है।

कीर्ती के. गुप्ता
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते मुख्य निर्माता

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

फरीदाबाद-121001, दिनांक 17 फरवरी 2003

सं. 3-2/96-प्रशा.-प्रथम--इस निदेशालय के श्री जय इन्द्र पाल सिंह को दिनांक 14.06.2001 से 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में वनस्पति संरक्षण अधिकारी (की.वि.) समूह "ख" (राजपत्रित) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

पी. एस. चंदुरकर
वनस्पति संरक्षण सलाहकार

सं. 3-2/96-प्रशा.-प्रथम--इस निदेशालय के श्री एस. के. वर्मा को दिनांक 04.05.2002 से 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में वनस्पति संरक्षण अधिकारी (की.वि.) समूह "ख" (राजपत्रित) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

पी. एस. चंदुरकर
वनस्पति संरक्षण सलाहकार

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
(कार्मिक प्रभाग)

मुम्बई-400085, दिनांक 10 फरवरी 2003

शुद्धि-पत्र

सं. स्थापना-1ए/475--दिनांक 16.12.2002 के राजपत्र अधिसूचना सं. स्थापना वन ए/2608 तथा दिनांक 4.1.2003 को भारत सरकार के राजपत्र के भाग I के खंड-III में प्रकाशित अधिसूचना के संदर्भ में क्र. सं. 39 में श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, विशिष्ट वैज्ञानिक के नाम को निकाल दिया जाए।

अन्टोनी डिसा
नियंत्रक

मुम्बई-400085, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. पीडी/71701/2002/आर-4--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के श्री ए. के. मुडैया, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'डी' के वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'ई' के पद पर इसी अनुसंधान केन्द्र में दिनांक 1 अगस्त, 2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्थापना रूप में नियुक्त करते हैं।

डॉ. जी. डी. पुंगले
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग
(प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र)

इन्दौर-452013, दिनांक 11 फरवरी 2003

सं. केट/प्रशासन/भ.-807(2)/151--निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर द्वारा श्री जी. आर. सिंह, सहायक लेखा अधिकारी को इस केन्द्र में अवकाश-परक रिक्ति में वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- में लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 20.12.2002 (पूर्वाह) से 31.01.2003 (अपराह) तक नियुक्त किया गया है।

अ. पट्टाबिरामन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. केट/प्रशासन/भ.-807(2)/152--निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर द्वारा श्री ए. के. मुखल, सहायक लेखापाल को इस केन्द्र में अवकाश-परक रिक्ति में वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 20.12.2002 (पूर्वाह) से 31.01.2003 (अपराह) तक नियुक्त किया गया है।

अ. पट्टाबिरामन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 11 फरवरी 2003

सं. नाईस/काप्रभ-II/8-2002/28--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/सहायकों को प्रत्येक के सम्मुख दर्शाए गए ग्रेड में 01.08.2002 से आगामी आदेशों तक इसी डकार्ड में, स्थानापन्न हैसियत में, सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्रमांक	नाम	पदोन्नति	
		ग्रेड से	ग्रेड तक
वैज्ञानिक अधिकारी/‘ई’ का वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/-			
	सर्वश्री/श्रीमती		
01.	एन. भूमय्या	वैज्ञा. अधि./डी	वैज्ञा. अधि./ई
02.	ए. वेंकटेश्वर्लु
03.	एल. बी. प्रभाकर
04.	रामा रमेश
05.	बी. के. ओ. कृष्ण
06.	टी. चंद्रमौल्यबाह
07.	प्रकाश गिर
08.	पी. अशोक कुमार
09.	एन. अप्पा राव
10.	जे. नाग राज	वैज्ञा. सहा./एफ	..

क्रमांक	नाम	पदोन्नति	
		ग्रेड से	ग्रेड तक
वैज्ञानिक अधिकारी/ 'डी' का वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/-			
	सर्वश्री/श्रीमती		
01.	वाई. वी. राव	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी
02.	के. विजय मोहन	"	"
03.	वाई. एस. आर. मूर्ति	"	"
04.	जे. प्रसाद	"	"
05.	एस. राजू	"	"
06.	टी. श्रीनिवास राव	"	"
07.	के. कस्तूरी बाई	"	"
08.	ए. नागराजू	"	"
09.	पी. परशुरामुलु	"	"
10.	वी. सीताराम	"	"
11.	वी. सूर्यनारायण	"	"
12.	वी. राजगोपालन	"	"
13.	के. वी. वी. सत्यनारायण	"	"
14.	यू. बी. मिश्रा	"	"
15.	जी. चन्द्रमोहन	वैज्ञा. सहा./ई	"
16.	टी. जगनमोहन राव	"	"
17.	एस. हरिनाथ बाबा	"	"

वैज्ञानिक अधिकारी/‘सी’ का वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/-

	सर्वश्री/श्रीमती		
01.	जी. रामा राव	वैज्ञा. अधि./एसबी	वैज्ञा. अधि./सी
02.	बी. शिवा रेड्डी	"	"
03.	के. विजयन	"	"
04.	जे. प्रसाद राव	"	"
05.	आर. एस. नायर	"	"
06.	वी. पी. पद्मनाभन	"	"
07.	ए. वेंकटदास	"	"
08.	ई. आर. एम. रेड्डी	"	"
09.	मोहम्मद जहीरुद्दीन	"	"
10.	टी. वी. लक्ष्मण	वैज्ञा. सहा./डी	"
11.	डी. एस. एस. वेंकटेश्वर्लु	"	"
12.	डी. राजेश्वर राव	"	"

टी. वाई. प्रह्लाद राव
प्रशासनिक अधिकारी

जल संसाधन मंत्रालय
(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

एन.एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. 3-1412/03-अनु. (स्था.)--विभागीय पदोन्नति समिति (समूह ख) की सिफारिश पर निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षक को रु. 7,500-250-12,000/- मासिक एवं अन्य भत्तों के साथ प्रशासनिक अधिकारी (समूह "ख" राजपत्रित) के रूप में अस्थायी रूप से उनकी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि (उनके नाम के सामने दर्शायी गई) से नियुक्त किया जाता है :--

क्र.सं.	नाम	पदस्थापन का स्थान	पदोन्नति की तारीख
1.	सर्वश्री जी. बी. एस. वाई. नारायण	द. पू. क्षेत्र, भुवनेश्वर	09.01.03
2.	मूल चन्द	मुख्यालय, फरीदाबाद	31.12.02
3.	आर. एस. मिश्रा	मुख्यालय, फरीदाबाद	31.12.02
4.	सी. एस. कड़ाकोटी	मुख्यालय, फरीदाबाद	31.12.02
5.	वाई. यू. राव	उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र, रायपुर	06.01.03

वे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। सक्षम अधिकारी ने अगर अनिवार्य समझा तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है।

जे. एस. बुर्जिया
अध्यक्ष

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुम्बई-400020, दिनांक 3 फरवरी 2003

सं. एफ.301-एडी(एटी)/2003--श्री के. वी. चन्द्रन, आशुलिपिक श्रेणी-I, केन्द्रीय जल एवं ऊर्जा अनुसंधान स्टेशन, को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-2), दिनांक 05.01.1994 में निहित तथा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रतिनियुक्ति को सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, चेन्नई पीठें, चेन्नई में, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में, दिनांक 27.01.2003 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्थानापन्न रूप में, निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

बी. डांगजाथंग
अध्यक्ष

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स धानिका प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 फरवरी 2003

सं. 560/55-35084/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स धानिका प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लक्ष्मण फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 फरवरी 2003

सं. 560/55-46580/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लक्ष्मण फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोडर्न कास्टवेल् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 फरवरी 2003

सं. 560/55-11625/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मोडर्न कास्टवेल् प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शान्त ऐक्विजि प्रাইवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 फरवरी 2003

सं. 560/55-98784/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शान्त ऐक्विजि प्रাইवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी. एल. होम थैरेप्युटिक्स प्रাইवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. 560/55-71581/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बी. एल. होम थैरेप्युटिक्स प्रাইवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डी. डी. कार्गो एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 फरवरी 2003

सं. 560/55-50158/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डी. डी. कार्गो एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स संत कंसल्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. 560/55-21639/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स संत कंसल्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्लिफ्टन चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 फरवरी 2003

सं. 560/55-54105/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्लिफ्टन चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेस्ट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. 560/55-29200/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वेस्ट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुमित हैन्डीक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 फरवरी 2003

सं. 560/55-59179/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुमित हैन्डीक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एसपीएमएस ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 फरवरी 2003

सं. 560/55-57116/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एसपीएमएस ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए.पी.डी. कन्ट्रोल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 फरवरी 2003

सं. 560/55-70899/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ए.पी.डी. कन्ट्रोल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आयोजित फाइनेन्स एण्ड लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 फरवरी 2003

सं. 560/55-38550/OG1/452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आयोजित फाइनेन्स एण्ड लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. डालमिया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वी. के. एम. फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 फरवरी 2003

सं. 560/3/55/079717/776--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स वी. के. एम. फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उन्नति म्युचुअल बनेफिट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. 560(3)/790--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स उन्नति म्युचुअल बनेफिट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्राफ्ट इण्डिया ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 फरवरी 2003

सं. 560(3)/83068/798--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स क्राफ्ट इण्डिया ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेएसएन प्रिन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 फरवरी 2003

सं. 560(3)/55/80943/801--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स जेएसएन प्रिन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मनोहर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 फरवरी 2003

सं. 560(3)/55/96886/804--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स मनोहर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एन. के. कोल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 फरवरी 2003

सं. 560(3)/78364/807--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स एन. के. कोल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सुनावक्षी कम्प्यूटर्स एण्ड स्कील्स डेवलपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-1, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. एल.सी./560(3)/13987--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सुनावक्षी कम्प्यूटर्स एण्ड स्कील्स डेवलपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स बेलकम एडवर्टाइजर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-1, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. एल.सी./560(3)/11483--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स बेलकम एडवर्टाइजर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स मार्बल ऑटो कम्पोनेन्ट्स
(प्राइवेट) लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-1, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. एल.सी./560(3)/22444--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मार्बल ऑटो कम्पोनेन्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सेलेक्स कम्पोनेन्ट्स (प्राइवेट)
लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-1, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. एल.सी./560(3)/22496--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सेलेक्ट्स कम्पोनेन्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

डॉ. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स पी. सी. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-1, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. एल.सी./560(3)/8727--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स पी. सी. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. डी. कश्यप
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स मोहन फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-1, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. एल.सी./560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मोहन फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. डी. कश्यप
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स मलिक पब्लिशर्स (प्राईवेट) लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-1, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. एल.सी./560(3)/3250--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मलिक पब्लिशर्स (प्राईवेट) लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. डी. कश्यप
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स स्मार्ट एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 6 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560/12007/712--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स स्मार्ट एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सिद्धान्त फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 6 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560/12083/685--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स सिद्धान्त फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड, इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स चम्बर फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 6 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560/12478/705--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स चम्बर फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स यू. पी. मार्केट कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560/8902/726--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स यू. पी. मार्केट कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स नीलकंठ बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 17 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560/11627/775--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स नीलकंठ बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्दौर ओवरसीज लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 14 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/12969/धारा 560(3)/4319--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स इन्दौर ओवरसीज लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के सम्बन्ध में।

कोलकाता-700020, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. टी.एस./560/मास्टर फाइल-2--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की समाप्ति तक किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और निम्न कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी। यह अधिसूचना विभाग के परिपत्र सं. 1/5/2000-सीएल. 5 दिनांक 20 सितम्बर, 2000 के अनुसरण में जारी की गई।

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	49200	मैसर्स लेक टाउन डायग्नोस्टिक्स एण्ड स्कैनिंग सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
2.	59169	मैसर्स मधु क्रेडिट एण्ड कॉमर्शियल लिमिटेड

1	2	3
3.	48748	मैसर्स मेता प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	37396	मैसर्स मेरिन स्क्रैप मर्चेन्ट्स एसोसियेशन
5.	45566	मैसर्स एक्रो प्लास्ट इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
6.	49547	मैसर्स संकर आइस प्लान्ट प्राईवेट लिमिटेड
7.	53777	मैसर्स श्री राधा कृष्ण कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
8.	58990	मैसर्स जी. बी. हाउसफिन एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
9.	47104	मैसर्स इन्फोकॉन कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
10.	40637	मैसर्स कूलेक्स कूलिंग टावर प्राईवेट लिमिटेड
11.	53223	मैसर्स श्री गुरु धलाई प्राईवेट लिमिटेड
12.	42502	मैसर्स कम्प्यूटर एड्स एण्ड बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड
13.	54076	मैसर्स रायकॉन टेक प्राईवेट लिमिटेड
14.	53677	मैसर्स कैरोलिना टोबैक्को कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
15.	51520	मैसर्स भिलाई फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	55748	मैसर्स कम्पास कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	48377	मैसर्स श्री पार्वती डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
18.	48380	मैसर्स श्री गणेश कम्प्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	48379	मैसर्स श्री दुर्गा कम्प्लेक्स (प्राईवेट) लिमिटेड
20.	48378	मैसर्स श्री लक्ष्मी नारायण कम्प्लेक्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
21.	40118	मैसर्स विनायक हैप्पी होम प्राईवेट लिमिटेड
22.	53768	मैसर्स निपटन हाऊसिंग फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
23.	45728	मैसर्स कनक शिला डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	44910	मैसर्स वेल्ड हीट प्राईवेट लिमिटेड
25.	51364	मैसर्स कलकत्ता केबल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
26.	47178	मैसर्स स्वदेश भारता प्राईवेट लिमिटेड
27.	35238	मैसर्स सुन्दरबन सी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	31400	मैसर्स सिन्हा टेकनिक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
29.	32758	मैसर्स इन्टेग्रेटेड कन्टेनर टर्मिनल प्राईवेट लिमिटेड
30.	36073	मैसर्स देवजॉय (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
31.	41052	मैसर्स लेवकॉन पॉलुशन कन्ट्रोल प्राईवेट लिमिटेड
32.	56718	मैसर्स मोर्वी मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	44989	मैसर्स के. सी. इन्जीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
34.	58725	मैसर्स नीरंश इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनैशियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
35.	40046	मैसर्स युनाइटेड रोड कैरियर प्राईवेट लिमिटेड
36.	51547	मैसर्स सर्विडे डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	52532	मैसर्स एम. एस. रोटी इन्वोवर्स एण्ड इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	65048	मैसर्स आहूती इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	77841	मैसर्स अग्रवाल कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड
40.	62156	मैसर्स बी. बी. जे. इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
41.	63335	मैसर्स धनलक्ष्मी डीलकॉम प्राईवेट लिमिटेड
42.	62923	मैसर्स हेल्थ केयर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

जी. मुखोपाध्याय
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और फास्ट ट्रेक स्कीम के अन्तर्गत लागू तथा
निम्नलिखित कम्पनी के सम्बन्ध में।

कोलकाता-700020, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. टी.एस./प्रा./560/24350/168/एफटीएस--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनी का नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	24350	मैसर्स अशोका एन्टरप्राइज़ प्राईवेट लिमिटेड

जी. मुखोपाध्याय
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के सम्बन्ध में।

कोलकाता-700020, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. टी.एस./560/मास्टर फाईल-2--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	70113	मैसर्स शवनवर्ग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
2.	71776	मैसर्स रेकॉन कन्सल्टैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	87495	मैसर्स पेरिहेलियन मार्केटिंग लिमिटेड

जी. मुखोपाध्याय
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शालीभद्र फिनलीज प्राईवेट
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./28472/एस.टी.ए./560/2002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स शालीभद्र फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवलाल लक्ष्मीचन्द कॉटन
एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./10228/एस.टी.ए./560/2002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स शिवलाल लक्ष्मीचन्द कॉटन एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बालचन्द केशर चन्द
कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./138877/एस.टी.ए./560/99-2000--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद
मैसर्स बालचन्द केशर चन्द कॉमर्शियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का
नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट
दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सक्सेस इन्फोटेक प्राईवेट
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 23 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./35249/एस.टी.ए./560/99-2000--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद
मैसर्स सक्सेस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण
दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी
विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विनसर कन्सल्टिंग इन्जीनियर्स
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./27437/एस.टी.ए./560/99-2000--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद
मैसर्स विनसर कन्सल्टिंग इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके
प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राइड्स कन्सल्टेन्सी सर्विसेज
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 23 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./24323/एस.टी.ए./560/99-2000--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद
मैसर्स राइड्स कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके
प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हैबीटेड आर्किटेक्ट्स प्लानर्स
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./18517/एस.टी.ए./560/99-2000--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद
मैसर्स हैबीटेड आर्किटेक्ट्स प्लानर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके
प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राइड्स फिनस्टोक सर्विसेज
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 23 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./24993/एस.टी.ए./560/99-2000--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद
मैसर्स राइड्स फिनस्टोक सर्विसेज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निरमुम स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 29 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./34939/एस.टी.ए./560/99-2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स निरमुम स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आनन्द एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 29 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./35739/एस.टी.ए./560/99-2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स आनन्द एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मकपील फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 29 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./39371/एस.टी.ए./560/99-2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स मकपील फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोनू फिनरस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 29 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./31092/एस.टी.ए./560/99-2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स सोनू फिनरस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आनन्द इन्फोसिटी प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 29 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./36124/एस.टी.ए./560/99-2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स आनन्द इन्फोसिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इनसेप्टी ड्रास लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 30 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./19474/एस.टी.ए./560/99-2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स इनसेप्टी ड्रास लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साकार रीयल्टी प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 31 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./35258/एस.टी.ए./560/99-2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स साकार रीयल्टी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फोरचून एनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 4 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./21788/एस.टी.ए./560/99-2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स फोरचून एनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स रोशनी प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 4 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./18601/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स रोशनी प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स पानोरमा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 4 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./16319/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स पानोरमा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स शान्ति चम्पा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 4 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./19957/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स शान्ति चम्पा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स श्रुति बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 4 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./13082/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन

सं. आर.ओ.सी./21467/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग,
भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000

के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स राज एकवाटीक ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वरदान इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 4 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./30996/एस.टी.ए./560/2002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स वरदान इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोल्यूशन मशीन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./33301/एस.टी.ए./560/2002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स सोल्यूशन मशीन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुजरात प्राईम मूवर्स लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./7650/एस.टी.ए./560/2002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स गुजरात प्राईम मूवर्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स आई. सी. इनवेस्टमेन्ट्स लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./9174/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स आई. सी. इनवेस्टमेन्ट्स लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स यशपाल इनवेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./4347/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स यशपाल इनवेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स मधुवृंद होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./4327/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स मधुवृंद होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स बालवाटिका होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./4346/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स बालवाटिका होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स श्रृशा इनवेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./4355/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000

के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स श्रृशा इनवेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पटेल स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./36175/एस.टी.ए./560/2002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स पटेल स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वनदेवी प्लान्टेशन (फार्म्स) एण्ड रिसोर्ट डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./27529/एस.टी.ए./560/2002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स वनदेवी प्लान्टेशन (फार्म्स) एण्ड रिसोर्ट डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स लाइफ बॉण्ड सेल्स एण्ड कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./7524/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग,

भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स लाइफ बॉण्ड सेल्स एण्ड कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डॉ. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स मैनेजमेन्ट सर्विस स्पेसिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./8298/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स मैनेजमेन्ट सर्विस स्पेसिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डॉ. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स जोडिएक मशीन्स टूल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./7858/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स जोडिएक मशीन्स टूल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डॉ. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इकोमान सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./15334/एस.टी.ए./560/2002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स इकोमान सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डॉ. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स परगॉन इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./7942/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स परगॉन इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डॉ. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स जोडिएक मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./7475/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स जोडिएक मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डॉ. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स स्वान जोय इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./28275/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. बी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृत आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स स्वान जोय इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स लुनार हास्पिटल लिमिटेड के विषय में।

कटक, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./टीएस/560/4929/2994--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनी का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा और इस कम्पनी को विघटित कर दिया जाएगा :--

क्र. सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
01.	15-04929	मैसर्स लुनार हास्पिटल लिमिटेड

आलोक सामन्तराय
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स क्रिएटिव सिव्युरिटी एजेन्सी (उड़ीसा) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कटक, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./टीएस/560/2980/2995--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित

कम्पनी का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा और इस कम्पनी को विघटित कर दिया जाएगा :--

क्र. सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
01.	15-02980	मैसर्स क्रिएटिव सिव्युरिटी एजेन्सी (उड़ीसा) प्राईवेट लिमिटेड

आलोक सामन्तराय
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स एसोसिएटेड इन्जीनियर्स एण्ड इरेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कटक, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./टीएस/560/15-04659/2996--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनी का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा और इस कम्पनी को विघटित कर दिया जाएगा :--

क्र. सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
01.	15-04659	मैसर्स एसोसिएटेड इन्जीनियर्स एण्ड इरेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड

आलोक सामन्तराय
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन फास्ट ट्रेक स्कीम के अन्तर्गत और मैसर्स फिलब इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी, दिनांक 11 फरवरी 2003

सं. 24-01621/U/S. 560(5)/4266--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स फिलब इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. अहमद कुंजु
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 27th January 2003

No. A-12011/2/98-Admn. I—In pursuance of DOP & Trg. O.M. No. 20/2/98-CS. II dated 8th January 2003, the President is pleased to appoint the following Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS to the Private Secretary Grade (Principal Private Secretary) of CSSS in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in the cadre of UPSC on ad-hoc basis w. e. f. 1st January to 30th June 2003 or till Select List officers become available, or until further orders, whichever is earlier:—

i. Shri K. K. Sharma

ii. B. S. Ghuman

2. The promotion of the above-mentioned Officers as PPS is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary Grade of CSSS.

3. This issues in continuation of this office notification No. A-19016/1/2002-Admn. I dated 8th October 2002 and No. A-12011/2/98-Admn. I dated 2nd December 2002.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)

The 4th February 2003

No. A. 35918/2/2002-Admn. II—The Chairman, Union Public Service Commission hereby appoints Shri S. P. Dey, a regular Section Officer of CSS cadre of Union Public Service Commission to the post of Assistant Director (Confidential) (Group 'A' Gazetted) in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in the office of Union Public Service Commission on deputation basis for a period of 3 years w. e. f. 31-01-2003 (F.N.) to 30-01-2006 (A.N.) or until further orders, whichever is earlier.

2. The pay of Shri S. P. Dey during the period of deputation shall be regulated in accordance with the provisions contained in the D/o Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel and Training O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay. II) dated 05-01-1994 as amended from time to time.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)
for Chairman

Union Public Service Commission

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 17th January 2003

No. DPAD5/2003/265/A-19036/16/78-AD.V—Shri S.A.H. Naqvi relinquished charge of the post of Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of December 31, 2002.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)
CBI

The 4th February 2003

No. DPAD5/2002/266/3/55/2002-AD.V—The President is pleased to appoint Shri Arun Goyal, Asstt. Engineer of Prasar Bharati, Directorate General, New Delhi as Senior System Analyst in the Central Bureau of Investigation, New Delhi on deputation basis w.e.f. the forenoon of 29-10-2002 for a period of three years upto 28-10-2005 or until further orders whichever is earlier.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)
CBI

The 23rd January 2003

No. DPAD5/2003/347/3/8/2001-AD.V—Shri M. Pandiarajan relinquished charge of the post of Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31-12-2002 on attaining the age of superannuation.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)
CBI

No. DPAD5/2002/493/A-20023/6/75-AD, V—Shri Gopal Saran relinquished charge of Dy. Legal Adviser/CBI, ACB, Mumbai with effect from 31-1-2003 (A.N.) on attaining the age of superannuation.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)
CBI

No. DPAD 5/2003/515/3-61/2002-AD.V—Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint Shri G. Kuppu Swamy, Crime Assistant, CBI in the grade of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 16-12-2002.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)
CBI

NO. DPAD 5/2003/516/3/2-2003-AD.V—Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint Shri Rakesh Kumar, Crime Assistant, CBI in the grade of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 04-12-2002.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)
CBI

NO. DPAD 5/2002/517/V-5/71-AD.V—Shri V. S. Prasad relinquished charge of Sr. Public Prosecutor, CBI, AHD, Patna with effect from 31-1-2003 (A.N.) on attaining the age of superannuation.

S. D. BAIJAL,
Administrative Officer (Estt.)
CBI

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 4th February 2003

No. A. VI. 1/2002-Prs-I—The President is pleased to appoint the following candidates as Assistant Commandants in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,900-275-13,500 in a temporary capacity until further orders against the overall strength of Central Reserve Police Force:—

Name of Officer	Date of joining
S/Shri	
Manoj Kumar (OBC)	28-12-2002(AN)
Prem Kumar (SC)	-do-
Vikash Chandra	-do-
T. Thongkhal Lal	-do-
Mool Chand (OBC)	-do-
Kishore Nagdev N (ST)	-do-
Nishant Chaudhary (OBC)	-do-
Narender	-do-
Sudhir Kumar Chauhan	-do-
Chaudhary Mahesh Kumar (SC)	-do-
Miss Anjana Yadav	-do-
Mukund Mohan	-do-
Narendra Kumar (OBC)	-do-
Rajesh (OBC)	-do-

1	2
S/Shri	
Sumit Kumar	28-12-2002 (AN)
Mayank Tiwari	-do-
Ajeet Bhatti (OBC)	-do-
Rajnish Kumar (OBC)	-do-
Manoj Kumar Sonagra (SC)	-do-
Vikram Singh (OBC)	-do-
Bishan Singh (OBC)	-do-
Pupu Misao (ST)	-do-
Ramvarlien Philip (ST)	-do-
Rajesh Chauhan	-do-
Ashok Chander (SC)	-do-
Chunggin Hangsing (ST)	-do-
Navin Chandra (SC)	-do-
Miss Santosh Kumari Dhaka (OBC)	-do-
Rahul Dharamvir Seth	-do-
T. Thongkhalal (ST)	-do-
Michael Vanlalruot (ST)	-do-
Vinod Kumar Kanaujia (OBC)	-do-
Sanjeev Kumar Rattu (SC)	-do-
Aditya Mishra	-do-
Alok Awasthi	-do-
Deven Bra Singh Kaswa (OBC)	-do-
Kanhaiya Singh	-do-
Ajit Singh Negi	-do-
Ashish Dixit	-do-
Mukhtyar Singh	-do-
Angom Naresh Singh (OBC)	-do-
Anurag Kumar Singh (OBC)	-do-
Satish Kumar Malik	-do-
Hari Om Sagar (OBC)	-do-
Md. Yaseer Abbasi	-do-
Ram Chandra (OBC)	-do-
Vipin Yadav (OBC)	-do-
Aparna R. S.	-do-
Santosh Kumar	-do-
Gopal Kumar Gupta (OBC)	-do-
Arvind P. Anand (SC)	-do-
G. Suresh Babu (SC)	-do-
Sorabli Bhatnagar	-do-
Ram Prasad Dauliya (SC)	-do-

The 10th February 2003

1	2
S/Shri	28-12-2002 (A.N.)
Anil Kumar (OBC)	-do-
Mukesh Kumar Singh (OBC)	-do-
Vishwa Deep Singh	-do-
Naisam S. (OBC)	-do-
Brajesh Kumar Singh	-do-
Ramavtar Bhalothia (OBC)	-do-
Bijender Kumar	-do-
Miss Usha Gurung	-do-
T. Mangmuanlal Paite (ST)	-do-
Alok Kumar Singh	-do-
Ravi Mishra	-do-
Sanjeev Kumar Singh	-do-
Akhilesh Kumar Singh (OBC)	-do-
Amrit Sinha	-do-
Kailash Chander Ahlawat (SC)	-do-
Bimal Raj C (OBC)	-do-
Narender Singh	-do-
Anil Kishor Yadav (OBC)	-do-
Kailash Chand Ramola	-do-
Ravinder Kumar	-do-
Rothanglur L. Fimate (ST)	-do-
Pankaj Kumar Singh	-do-
Arvind Tripathi	6-1-2003(AN)
Deepak Kumar	9-1-2003(AN)
Bijendra Singh Bhati (OBC)	-do-
Wangkheimayum Samananda Singh (OBC)	-do-
Ran. Vijay Mishra	-do-
Bhawani Pratap Yadav (OBC)	-do-
Durga Ram (SC)	11-1-2003(FN)
Mukesh Singh Yadav (OBC)	17-1-2003(FN)
Pradeep Kumar (SC)	19-1-2003(AN)
Rajeev Ranjan Jha	21-1-2003(AN)
Kunal	25-1-2003(AN)

2. They have reported to ISA, CRPF, Mount Abu for training and have taken over the charge of their post on the dates notes against their names.

MAN SINGH RAWAT
Addl. DIGP (Pers-I)

No. O. 11-1673/81-PERS. I—Consequent on acceptance of his notice dated 28-09-2002 for voluntary retirement from Government service, Shri Nihal Singh, Dy. Comdt. (IRLA-1946) of 55 Bn, CRPF has been relieved from his post on 1-1-2002 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 1-1-2003 (FN).

MAN SINGH RAWAT
Addl. DIGP (Pers. I)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
ACCOUNTANT GENERAL (LOCAL
BODIES AUDIT), WEST BENGAL
(LOCAL AUDIT DEPARTMENT)

Kolkata-700001, the 10th February 2003

No. LA/Admn/Pen/MDM/204/57/5617—Md. Muslim, Audit Officer of the Office of Accountant General (Local Bodies Audit), West Bengal, Local Audit Department, retired on superannuation with effect from 31-1-2003 (A/N).

B. K. BANIK
Deputy Accountant General (Local Bodies)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT
GENERAL (A & E), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 5th February 2003

No. WM-I/197—Under the orders of the Accountant General (A & E), West Bengal, the following Divisional Accounts Officer, Grade-I are hereby promoted as Senior Divisional Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in temporary and officiating capacity with effect from the date of assumption of charges as Sr. Divisional Accounts Officer in the present divisions till further orders. They will be on probation for a period of two (2) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No.	Name
1.	Gobinda Pada Ghosh
2.	Adhir Kr. Ghosh
3.	Biswanath Pal I
4.	Asim Kumar Halder
5.	Sitanath Chakraborty
6.	Asok Kumar Chatterjee
7.	Ashis Kumar Chatterjee
8.	Manjoor Alam

The above named officers may submit their options under FR 22 (I)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as Senior Divisional Accounts Officer for fixation of pay on promotion.

Sd./- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A/cs)

**OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT
GENERAL (AUDIT), RAJASTHAN**

Jaipur, the 10th February 2003

No. Admn. I/Au/P-13044/2003—The Pr. Accountant General (Audit)-I, Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Audit Officers to the post of Sr. Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500 in an officiating capacity till further orders from the dates noted against their names :—

S. No.	Name	Date of Promotion
	S/Shri	
1.	Dinesh Chand Garg	01-01-2003
2.	Mool Chand Garg	-do-
3.	Paras Mal Soni	02-01-2003
4.	Satyendra Kumar Maheshwari	01-01-2003
5.	Ram Niwas Tailor	-do-
6.	Gopal Lal Gurjar	-do-

Sd/- ILLEGIBLE
Audit Officer (Admn. I)

No. Admn. I/Au/P-13044/2003—The Pr. Accountant General (Audit)-I, Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Asstt. Audit Officers to the post of Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7500-250.12000

in an officiating capacity till further orders from the dates noted against their names :—

S.No.	Name	Date of Promotion
	S/Shri	
1.	Murli Dhar Bhatia	11-10-2002 (AN)
2.	Jai Singh Dahya (SC)	17-10-2002
3.	Kailash Prasad Sharma-I	16-10-2002
4.	Ganpat Lal Kuldeep (SC)	21-10-2002
5.	Jagdish Ram Meena (ST)	17-10-2002
6.	Bansi Dhar Vyas	16-10-2002
7.	Bhim Sen	01-01-2003
8.	Kuldeep Kumar Sorai	-do-
9.	Chandagi Ram Jhakar-II	-do-
10.	Suresh Chandra Mathur-II	-do-
11.	Jagdish Narain Gupta	-do-
12.	Vishnu Dutt Sharma	03-02-2003
13.	Vijay Kumar Jain	-do-

Sd/- ILLEGIBLE
Audit Officer/Admn-I

No. Admn. I/Au/P-13044/2003—The Pr. Accountant General (Audit)-I, Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Section Officers to the post of Asstt. Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500 in an officiating capacity on the probation of two years till further orders from the dates noted against their names :—

S.No.	Name	Date of promotion
	(S/Shri)	
1.	Raj Kumar Sharma	21-10-2002
2.	Hemant Kumar Kulkarni	-do-
3.	Harish Kumar Jeswani	-do-
4.	Sedu Ram Koli (SC)	-do-
5.	Sita Ram Sharma	-do-
6.	Gajendra Singh Chauhan	-do-
7.	Ashok Kumar Sharma	-do-
8.	Sushil Kumar Bajrwa (SC)	05-12-2002
9.	Shailendra Kumar Sharma	01-01-2003
10.	Mukesh Kumar Vijay	-do-
11.	Kapoor Chand (SC)	-do-
12.	Kailash Chand Sharma-I	-do-
13.	Gauri Shankar Chug	-do-
14.	Narendra Nath Bhargava	03-02-2003

Sd/- ILLEGIBLE
Audit Officer/Admn. I

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
(OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS)

New Delhi-66, the 13th February 2003

No. AN-1/1467/5/1(G).—The undermentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, who have attained the age of superannuation on the date shown below their date of birth have been struck off the strength of the Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the dates shown against each :—

Sl. No.	Name	Date of Birth Date of retirement	Date on which transferred to the Pension Establishment
1.	S/Shri S.M. Balakrishna	22-01-1943 31-01-2003	01-02-2003
2.	T.S. Shishodia	04-01-1943 31-01-2003	-do-
3.	Mangal Prasad	10-01-1943 31-01-2003	-do-

KUPPASWAMY,
Asstt. Controller General of Defence Accounts (Administration)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

**OFFICE OF THE DEVELOPMENT
COMMISSIONER**

(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 6th January 2003

No. A-19018/393/79-Admn. (G)—The President is pleased to appoint Shri Ranjeet Singh, Deputy Director (Mechanical), Small Industries Service Institute, Ludhiana as Director (Mechanical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 in Small Industries Service Institute, Srinagar with effect from the forenoon of 31-10-2002 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Dy. Director (Admn.)

KOYLA AUR KHAN MANTRALAYA
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700016, the 10th February 2003

No. 344-SP A-32013/I-Geol (Sr.)/2002-19A—The President is pleased to appoint the following Geologist (Jr.), Geological Survey of India, on promotion as Geologist (Sr.) in the same Department and on pay according to rules in the scale of pay of

Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis w. e. f. the date mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of joining
1	2	3
	Shri/Smt.	
1.	D. P. Sharma	25-10-2002 (AN)
2.	Sanat Kr. Bhattacharya	-do-
3.	Sumitra Sen	21-11-2002 (FN)
4.	B. L. Srivastava	25-10-2002 (AN)
5.	S. R. Shamshad	-do-
6.	Rajendra Kumar Sharma	-do-
7.	K. C. Bandyopadhyay	-do-
8.	D. Sundaravanan	20-11-2002 (FN)
9.	D. W. Voshi	25-10-2002 (AN)
10.	V. K. Chittora	-do-
11.	D. D. Bhattacharya	-do-
12.	Mohd. Fahim	-do-

K. P. GAUTAM
Director (Personnel)
for Director General
Geological Survey of India

Kolkata-700016, the 10th February 2003

CORRIGENDUM

No. 502/B/A-19011(1-PPC)/92/19A—In partial modification of this office Notification No. 2982B-2994B/A-19011 (1-PPC)/92/19A dt. 31-8-2001, the date of resignation duly accepted by the Director General, Geological Survey of India in respect of Dr. Partha Pratim Chakraborty who was released from G.S.I. to join ISM, Dhanbad as Asstt. Professor on permanent absorption basis, should be read as 3-4-2000 (AN) instead of 31-3-2000 (FN). All other terms and conditions will remain unchanged.

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General
Geological Survey of India

(DEPARTMENT OF MINES)
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 7th February 2003

No. A-19012/370/2003-Estt. A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri P. P. Hiwarkar, Senior Technical Assistant (Mining Engineer) has been promoted to the post of Assistant Mining Engineer in Indian Bureau of Mines, Nagpur w. e. f. 27-1-2003 (A.N.).

S. K. BATAV
Administrative Officer
for Controller General
Indian Bureau of Mines

No. A-19011/224/2002-Estt. App.—“Shri S.B.S. Chauhan, Chief Mining Geologist, Indian Bureau of Mines has relinquished charge on the afternoon of 31-1-2003 on attaining the age of superannuation”.

(Smt.) S. M. MANGRULKAR
Asstt. Admn. Officer
Indian Bureau of Mines

No. A-19011/483/2002-Estt. App.—“Shri S. T. Arasan, Deputy Controller of Mines, Indian Bureau of Mines has relinquished charge on the afternoon of 31-1-2003 on attaining the age of superannuation”.

(Smt.) S. M. MANGRULKAR
Asstt. Admn. Officer
Indian Bureau of Mines

Nagpur, the 13th February 2003

No. A-31013/29/98-Estt. A.—The Government of India Ministry of Coal and Mines have conveyed the approval of the President to the confirmation of the following officer in Indian Bureau of Mines w.e.f. the date mentioned against his name :—

1. Shri M. S. Murthy—Superintending Mining Geologist—23-11-1999.

S. CHANDRAMOULI
Head of Office
Indian Bureau of Mines

MINISTRY OF INFORMATION &
BROADCASTING
(FILMS DIVISION)

Mumbai-400026, the 5th February 2003

CORRIGENDUM

No. A-12025/1/2000-Est. I—Reference this Office Notification No. A-12025/1/2000-Est. I dated the 14th January, 2003.

The following amendment is hereby made in the above Notification :

Instead of :

On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Competent Authority has appointed Shri S. N. Bahirat to the post of Assistant Administrative Officer, Group ‘B’ Gazetted on deputation basis in the Films Division on a pay of Rs. 8900/- P.M. in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500 with effect from the forenoon of 18th November, 2002 until further orders. He is posted at Films Division, New Delhi.

May please be read as :

On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Competent Authority has appointed Shri S. N. Bahirat to the post of Assistant Administrative Officer, Group ‘B’ Gazetted on deputation basis in the Films Division on a pay of Rs. 8900/- P.M. in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 attached to the post of Sr. Administrative Officer held by him in his parent department i.e. Doordarshan Kendra, Rajkot plus 10% Deputation Allowance of the basic pay subject to a maximum of Rs. 1000/- P.M.

in accordance with the instructions contained in DOP & T's O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 5-1-1994 and 2/8/97-Estt (Pay II) dated 12-11-1998 with effect from the forenoon of 18-11-2002 for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

KIRTI K. GUPTA,
Sr. Administrative Officer,
for Chief Producer

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION, QUARANTINE & STORAGE

Faridabad-121001, the 17th February 2003

No. 3-2/96-Admn. I—Shri Jai Inder Pal Singh of this Directorate is hereby appointed to the post of Plant Protection Officer (Ent.) Group 'B' (Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in a substantive capacity w.e.f. 14-6-2001.

P. S. CHANDURKAR
Plant Protection Adviser

No. 3-2/96-Admn. I—Shri S. K. Verma of this Directorate is hereby appointed to the post of Plant Protection Officer (Ent.) Group 'B' (Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in a substantive capacity w.e.f. 04-05-2002.

P. S. CHANDURKAR
Plant Protection Adviser

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE (PERSONNEL DIVISION)

Mumbai-400085, the 10th February 2003

CORRIGENDUM

No. Estt. IA/475—With reference to the Gazette Notification No. Estt. IA/2606 dated 16-12-2002, published in the Gazette of India on 4-1-2003 in

Part-III, Section-I the name of Shri Surendra Kumar Sharma, D. S. as appearing at Sl. No. 39 stands deleted.

ANTONY DE SA
Controller

Mumbai-85, the 13th February 2003

No. PD/7(10)/2002-R-IV/131—The President is pleased to appoint Shri A. K. Mudaiya, a Scientific Officer/Engineer Grade 'D' of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'E' in the same Research Centre with effect from the forenoon of 1st August, 2002 in an officiating capacity until further orders.

Dr. G. D. PUNGLE
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY (CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY)

Indore-452013, the 11th February 2003

No. CAT/Admn/R-807(2)/151—Director, Centre for Advanced Technology, Indore had appointed Shri G. R. Singh, Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000 on ad hoc basis with effect from the forenoon of 20-12-2002 to 31-1-2003(AN) against leave vacancy.

A. PATTABIRAMAN
Chief Administrative Officer

No. CAT/Admn/R-807(2)/152—Director, Centre for Advanced Technology, Indore had appointed Shri A. K. Muchhal, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on ad hoc basis with effect from the forenoon of 20-12-2002 to 31-1-2003 (AN) against leave vacancy.

A. PATTABIRAMAN
Chief Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 11th February 2003

No. NFC/PAR. II/8-2002/28—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Assistants of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the grades indicated against each w.e.f. 1-8-2002 in the same unit, in an officiating capacity, until further orders :—

S. No.	Name	Promotion	
		From Gr.	To Gr.
Scale of Pay of SO(E)—Rs. 12000-375-16500			
	(S/Shri/Smt.)	SO/D	SO/E
1.	N. Bhoomajah	"	"
2.	A. Venkateshwarlu	"	"
3.	L. B. Prabhakar	"	"
4.	Rama Ramesh	"	"
5.	V.K.G. Kutty	"	"
6.	T. Chandramouliah	"	"
7.	Prakash Gir	"	"
8.	P. Ashok Kumar	"	"
9.	N. Appa Rao	"	"
10.	J. Naga Raj	SA/F	"
Scale of Pay of SO(D)—Rs. 10000-325-15200			
		SO/C	SO/D
1.	Y. V. Rao	"	"
2.	K. Vijaya Mohan	"	"
3.	Y.S.R. Murthy	"	"
4.	J. Prasad	"	"
5.	S. Raju	"	"
6.	T. Srinivasa Rao	"	"
7.	K. Kasturi Bai	"	"
8.	A. Nagaraju	"	"
9.	P. Parushuramlu	"	"
10.	V. Sitarama	"	"
11.	V. Suryanarayana	"	"
12.	V. Rajagopalan	"	"
13.	KVV. Satyanarayana	"	"
14.	U B. Misra	"	"
15.	G. Chandramohan	SA/E	"
16.	T. Jaganmohan Rao	"	"
17.	S. Harinath Baba	"	"
Scale of Pay of SO(C)—Rs. 8000-275-13500			
		SO/SB	SO/C
1.	G. Rama Rao	"	"
2.	B. Siva Reddy	"	"
3.	K. Vijayan	"	"
4.	J. Prasad Rao	"	"
5.	R. S. Nair	"	"
6.	V. P. Padmanabham	"	"
7.	A. Venkatadas	"	"
8.	E. R. M. Reddy	"	"
9.	Mohd. Zahceruddin	"	"
10.	T. V. Lakshman	SA/D	"
11.	DSS. Venkateswarlu	"	"
12.	D. Rajeswar Rao	"	"

T. Y. PRAHALAD RAO
Administrative Officer

**MINISTRY OF WATER RESOURCES
(CENTRAL GROUND WATER BOARD)**

Faridabad-121001, the 7th February 2003

No. 3-1412/2003-Min. Estt.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group B), the following Office Superintendents are promoted to the post of Administrative Officers (Group B Gazetted), in the temporary capacity, in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- per month plus usual allowances from the actual date of their taking over the charge at their place of posting as shown against each ;—

Sl. No.	Name of Officer	Place of posting	Date of appointment
1.	Sh. G. V. S. Y. Narayana	SER, Bhubneshwar	09-01-2003
2.	Sh. Mohd Chand	CHQ, Faridabad	31-12-2002
3.	Sh. R. S. Mishra	CHQ, Faridabad	-do-
4.	Sh. C. S. Karakoti	CHQ, Faridabad	-do-
5.	Sh. Y. U. Roa	NCCR, Raipur	06-01-2003

They will be on probation for a period of 2 years from the date of their Joining which can be extended by the Competent Authority at his discretion, if considered necessary.

J. S. BURJIA
Chairman

INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400020, the 3rd February 2003

No. F 301-A1(AT)/2003—Shri K. V. Chandran, Steno Gd.I, Central Water and Power Research Station, Pune is appointed to officiate as Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Chennai Bench, Chennai in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- with effect from 27-1-2003 (FN) on deputation basis for a period of three years on the usual terms and conditions of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Deptt. of Personnel & Training) O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dt. 5-1-1994 as amended from time to time.

V. DONGZATHANG
President

**MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)**

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhanika Properties Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 3rd February 2003

No. 560/55-35031/CGI-452/7393—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of
5—476 GI/2002

M/s. Dhanika Properties Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Laxman Foods Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 3rd February 2003

No. 560/55-46580/OGI-452/7896—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Laxman Foods Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Modern Castwel Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 3rd February 2003

No. 560/55-11625/OGI-452/7899—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Modern Castwel Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shant Exim Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 5th February 2003

No. 560/55-93784/OGI-452/7913—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Shant Exim Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. D. D. Cargo and Travels Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 5th February 2003

No. 560/55-50158/OGI-452/7921—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. D. D. Cargo and Travels Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Clifton Chit Fund Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 5th February 2003

No. 560/55-54105/OGI-452/7925—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Clifton Chit Fund Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. B. L. Home Therapeutics Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 10th February 2003

No. 560/55-71581/OGI-452/7972—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. B. L. Home Therapeutics Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sant Constructions Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 10th February 2003

No. 560/55-21639/OGI-452/7988—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Sant Constructions Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. West Builders Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 10th February 2003

No. 560/55-29200/OGI-452/7992—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. West Builders Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sumit Handicrafts Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 11th February 2003

No. 560/55-59179/OGI-452/8019—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Sumit Handicrafts Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SPMS Overseas Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 11th February 2003

No. 560-55/57116/OGI-452/8022—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. SPMS Overseas Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. APD Controls India Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 11th February 2003

No. 560/55-70399/OGI-452/8026—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. APD Controls India Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ayojit Finance and Leasing Company
Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 14th February 2003

No. 560/55-38550/OGI-452/8045—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the

name of M/s. Ayojit Finance and Leasing Company Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. DALMIA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. VKM Finvest Lease Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 11th February 2003

No. u/s. 560(3)/55/079717/776—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. VKM Finvest Lease Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Unnati Mutual Benefit Ltd.

New Delhi-110003, the 13th February 2003

No. u/s. 560(3)/55/84259/790—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Unnati Mutual Benefit Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Craft India Overseas Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 14th February 2003

No. u/s. 560(3)/55/83068/798—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Craft India Overseas Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. JSN Prints Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 14th February 2003

No. u/s. /560(3)/55/80943/801—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. JSN Prints Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Manohar Exports Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 14th February 2003

No. u/s. /560(3)/55/96886/804—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Manohar Exports Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. N. K. Coal Sales Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 14th February 2003

No. u/s. /560(3)/55/78364/807—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, M/s. N. K. Coal Sales Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanakshi Computers & Skill Developments
Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 10th February 2003

No. 560(3)/LC/13987/1030—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of

M/s. Sanakshi Computers & Skill Developments Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies,
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Welcome Advertisers and Traders Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 10th February 2003

No. 560(3)/LC/11433/1032—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Welcome Advertisers and Traders Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jyoty Hotels Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 10th February 2003

No. 560(3)/LC/5963/1034—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Jyoty Hotels Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Phonix Components Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 13th February 2003

No. 560 (3)/LC/22445/1131—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Phonix Components Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Supreme Components Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 13th February 2003

No. 560(3)/LC/22446/1133—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Supreme Components Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Marvel Auto Components Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 13th February 2003

No. 560 (3)/LC/22444/1135—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Marvel Auto Components Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Select Components Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 13th February 2003

No. 560 (3)/LC/22496/1137—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Select Components Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. P. C. Agarwal and Associates Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 13th February 2003

No. 560(3)/LC/8729/1139—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof, the name of M/s. P. C. Agarwal and Associates Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from Register and the said Company will be dissolved.

R. D. KASHYAP
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mohan Finlease Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 13th February 2003

No. 560 (3)/LC/18462/1141—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Mohan Finlease Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. D. KASHYAP
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Malik Publishers Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 13th February 2003

No. 560(3)/LC/3250/1143—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Malik Publishers Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. D. KASHYAP
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Smart Exim Pvt. Ltd.

Jaipur, the 6th February 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/12007/712—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Smart Exim Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sidhant Finlease Pvt. Ltd.

Jaipur, the 6th February 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/2083/685—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Sidhant Finlease Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chumber Finance & Investment Pvt. Ltd.

Jaipur, the 6th February 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/12478/705—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Chumber Finance & Investment Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. U. P. Market Consultants Pvt. Ltd.

Jaipur, the 7th February 2003

No. ROC/560/8902/726—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. U. P. Market Consultants Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Neelkanth Build. Con. Pvt. Ltd.

Jaipur, the 17th February 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/11627/775—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof, the name of M/s. Neelkanth Build. Con. Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indore Overseas Ltd.

Gwalior-474009, the 14th February 2003

No. ROC-G/12969/S.560(3)/4319—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Indore Overseas Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Calcutta, the 12th December 2002

No. TS/560/Master File-2.—Notice is hereby given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 90 (Ninty) days from the date hereof, the name of the following companies unless any objection is received from any person will be struck off the Register and the said company will be dissolved. This notification is issued pursuant to Department's circular No. 1/5/2000-CL.V. dated 26th September, 2000.

Company No.	& Name of the Company
49200	M/s. Lake Town Diagnostics and Scanning Centre Pvt. Ltd.
59169	M/s. Madhu Credit & Commercial Ltd.
48748	M/s. Meta Products Pvt. Ltd.
37396	M/s. Marine Scrap Merchants Association.
45566	M/s. Acro Plast Industries Pvt. Ltd.
49547	M/s. Sankar Ice Plant Pvt. Ltd.
53777	M/s. Shree Radha Krishna Commercial Corporation Pvt. Ltd.
58990	M/s. G. B. Housefin & Investment Co. Private Ltd.
47104	M/s. Infocon Communication Pvt. Ltd.
40637	M/s. Coolex Cooling Tower Pvt. Ltd.
53223	M/s. Sree Guru Dhalai Pvt. Ltd.
42502	M/s. Computer Aids & Business Pvt. Ltd.
54076	M/s. Roycon Tech Pvt. Ltd.
48377	M/s. Shree Parbati Development Pvt. Ltd.
51520	M/s. Bhillai Finance Pvt. Ltd.
55748	M/s. Compass Consultants Pvt. Ltd.
48377	M/s. Shree Parbati Development Pvt. Ltd.
48380	M/s. Shree Ganesh Complex Pvt. Ltd.

Company No.	& Name of the Company
48379	M/s. Shree Durga Complex (P) Ltd.
48378	M/s. Shree Laxmi Narayan Complex Co. Pvt. Ltd.
40118	M/s. Vinayak Happy Home Pvt. Ltd.
53768	M/s. Nipton Housing Finance & Investment Co. Ltd.
45728	M/s. Kanak Sheila Departmental Stores Pvt. Ltd.
44910	M/s. Weld Heat Pvt. Ltd.
51364	M/s. Calcutta Cable Company Pvt. Ltd.
47178	M/s. Swadesh Barta Pvt. Ltd.
35238	M/s. Sunderban Sea Foods Pvt. Ltd.
31400	M/s. Sinha Technics Pvt. Ltd.
32758	M/s. Integrated Container Terminal Pvt. Ltd.
36073	M/s. Debjoy (India) Pvt. Ltd.
41052	M/s. Levecon Pollution Control Pvt. Ltd.
56718	M/s. Morvi Motors Pvt. Ltd.
44989	M/s. K. C. Engineering & Services Pvt. Ltd.
58725	M/s. Nipish Investment & Financial Services Pvt. Ltd.
40046	M/s. United Road Carrier Pvt. Ltd.
51547	M/s. Sarwiday Developers Pvt. Ltd.
52532	M/s. M. S. Roto Engravers & Impex Private Ltd.
65048	M/s. Aahuti Impes Pvt. Ltd.
77841	M/s. Agarwal Capital Pvt. Ltd.
62156	M/s. B. B. J. Engineering Pvt. Ltd.
63335	M/s. Dhanalakshmi Deacom Pvt. Ltd.
62923	M/s. Health Care Marcating Pvt. Ltd.

G. MUKHOPADHYAY
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and Application under Fast Track Scheme and of M/s. Ashoka Enterprise Private Ltd.

Kolkata-700020, the 13th February 2003

No. TS/PVT/560/24350/168/FTS—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ashoka Enterprise Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

G. MUKHOPADHYAY
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata-700020, the 13th February 2003

No. TS/560/Master File-2—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck

off from the Register and the said Companies are dissolved:—

Co. No.	Name of the Company
70113	Schauenburg India Pvt. Ltd.
71776	Raycon Consultants Pvt. Ltd.
87495	Perihelion Marketing Ltd.

G. MUKHOPADHYAY
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and M/s. Shalibhadra Fin-Lease Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 16th January 2003

No. ROC/28472/560(3)/2002/4036—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shalibhadra Fin-Lease Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Shivlal Laxmichand Cotton and Construction Company Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 16th January 2003

No. ROC/10228/560(3)/2002/4039—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shivlal Laxmichand Cotton and Construction Company Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Balchand Kasarchand Commercial Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 16th January 2003

No. ROC/13887/560(3)/2002/4042—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Balchand Kasarchand Commercial Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vincer Consulting Engineers Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 16th January 2003

No. ROC/27437/560(3)/2002/4045—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vincer Consulting Engineers Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Habitat Architects Planners Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 16th January 2003

No. ROC/18517/560(3)/2002/4048—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Habitat Architects Planners Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Success Infotech Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 23rd January 2003

No. ROC/35249/560(3)/2002/4078—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Success Infotech Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rids Consultancy Services Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 23rd January 2003

No. ROC/24323/560(3)/2002/4092—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name

of M/s. Rids Consultancy Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rids Finstock Ltd.

Ahmedabad-380013, the 23rd January 2003

No. ROC/24993/560(3)/2002/4095—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Rids Finstock Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nirmam Stockbroking Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 29th January 2003

No. ROC/34939/560(3)/2002/4119—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nirmam Stockbroking Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Makpil Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 29th January 2003

No. ROC/39371/560(3)/2002/4122—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Makpil Pharmaceuticals Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anand Infocity Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 29th January 2003

No. ROC/35124/560(3)/2002/4125—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Anand Infocity Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anand Entertainment Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380 013, the 29th January 2003

No. ROC/35739/560(3)/2002/4129—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Anand Entertainment Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sonu Finstock Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 29th January 2003

No. ROC/31092/560(3)/2002/4132—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sonu Finstock Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company shall be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Inceptodrugs Ltd.

Ahmedabad-380 013, the 30th January 2003

No. ROC/19474/560(3)/2002/4151—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name

6-476 GU/2002

of M/s. Inceptodrugs Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company shall be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sakar Realty Pvt. Ltd.

Ahmedabad 380 013, the 31st January 2003

No. ROC/35258/560(3)/2002/4161—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Sakar Realty Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company shall be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fortune Entrade Pvt. Ltd.

Ahmedabad 380 013, the 4th February 2003

No. ROC/21/33/560(3)/2002/4186—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Fortune Entrade Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company shall be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme and of
M/s. Roshni Properties Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 4th February 2003

No. ROC/18601/560(3)/2001/4189—Notice is hereby given pursuant to section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20/09/2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Roshni Properties Pvt. Ltd. unless cause is shown in contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Dy. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme and of
M/s. Panorama Properties Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 4th February 2003

No. ROC/16319/560(3)/2001/4192—Notice is hereby given pursuant to section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20/9/2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application Communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Panorama Properties Pvt. Ltd. unless cause is shown in contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme and of
M/s. Shanti Champa Exports Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 4th February 2003

No. ROC/19957/560(3)/2001/4197—Notice is hereby given pursuant to section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1-5-2000-CL. V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc., having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Shanti Champa Exports Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme and of
M/s. Shruti Builders Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 4th February 2004

No. ROC/13082/560(3)/2001/4201—Notice is hereby given pursuant to section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc., having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Shruti Builders Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme and of
M/s. Shree Sai Spares Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 4th February 2003

No. ROC/12501/560(3)/2001/4205—Notice is hereby given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc., having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Shree Sai Spares Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme and of
M/s. Sai Properties Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 4th February 2003

No. ROC/13076/560(3)/2001/4209—Notice is hereby given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc., having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Sai Properties Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and
application under Fast Track Scheme and of
M/s. Suryapur Developers Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 4th February 2004

No. ROC/16322/560(3)/2001/4213—Notice is hereby given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 read with Circular No. 10/2000 vide letter No. 1-5-2000 CL. V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Suryapur Developers Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme and of
M/s. Varshem Properties Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 4th February 2003

No. ROC/18599/560(3)/2001/4217—Notice is hereby given pursuant to section 560 of the companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Varshem Properties Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE

Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme and of
M/s. Raj Aquatic Group Private Limited

Ahmedabad-380013, the 4th February 2003

No. ROC/21467/560(3)/2001/4221—Notice is hereby given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL. V dated 20-09-2000 of the Department of Company Affairs, Govt. of India, that any person, authority etc. having any objection etc. to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Raj Aquatic Group Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE

Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vardan Impex Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 4th February 2003

No. ROC/30995/560(3)/2002/4225—Notice is hereby given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vardan Impex Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE

Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Solution Machines (India) Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 7th February 2003

No. ROC/33301/560(3)/2002/4248—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Solution Machines (India) Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE

Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gujarat Prime Movers Ltd.

Ahmedabad-380013, the 7th February 2003

No. ROC/7650/560(3)/2002/4245—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof, the name of M/s. Gujarat Prime Movers Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE

Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme and of
M/s. I. C. Investments Limited

Ahmedabad-380013, the 7th February 2002

No. ROC/9174/560(3)/2001/4251—Notice is hereby given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000 CL. V dated 20-9-2000 of the Department of the Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection etc. to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. I. C. Investments Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE

Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme and of
M/s. Yashpal Investments Private Limited

Ahmedabad-380013, the 7th February 2003

No. ROC/4347/560 (3)/2001/4255—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000 CL V dated 20-09-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Yashpal Investments Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme and of
M/s. Madhuvrund Holdings Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 7th February 2003

No. ROC/4327/560(3)/2001/4259—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL V dated 20-09-2000 the Department of Company affairs, Government of India, that any person, authority etc., having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Madhuvrund Holdings Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and
Application under Fast Track Scheme and of
M/s. Balvatika Holdings Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 7th February 2003

No. ROC/4346/560(3)/2001/4267—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000 CL V dated 20-09-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Balvatika Holdings Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and
application under Fast Track Scheme and of
M/s. Surusha Investment Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 7th February 2003

No. ROC/4355/560(3)/2001/4267—Notice is hereby given pursuant to sub-section(3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with Circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000 CL V dated 20-09-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Surusha Investment Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Patel Spinning Mills Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380 013, the 7th February 2003

No. ROC/36175/560(3)/2002/4271—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Patel Spinning Mills Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vandevi Plantation (Farms) and Resort
Development Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380 013, the 7th February 2003

No. ROC/27529,560(3)/2002/4274—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vandevi Plantation (Farms) and Resort Development Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and Application under Fast Track Scheme and of M/s. Lifebond Sales & Consultancy Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380 013, the 10th February 2003

No. ROC/7524/560(3)/2001/4280—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 read with Circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL V dated 20-09-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Lifebond Sales & Consultancy Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and Application under Fast Track Scheme and of M/s. Management Services Specialities Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 10th February 2003

No. ROC/8298/560(3)/2001/4287—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000 CL V dated 20/9/2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Management Services Specialities Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and Application under Fast Track Scheme and of M/s. Zodiac Machine Tools Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 10th February 2003

No. ROC/7858/560(3)/2001/4291—Notice is hereby given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 read with Circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000 CL V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person/authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Zodiac Machine Tools Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Ecoman Services Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 10th February 2003

No. ROC/15334/560(3)/2002/4283—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ecoman Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and Application under Fast Track Scheme and of M/s. Paragon Engineers Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 10th February 2003

No. ROC/7942/560(3)/2001/4295—Notice is hereby given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000 CL V dated 20/9/2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Paragon Engineers Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and Application under Fast Track Scheme and of M/s. Zodiac Machines Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 10th February 2003

No. ROC/7475/560(3)/2001/4299—Notice is hereby given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 read with Circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL V dated 20-09-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Zodiac Machines Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and Application under Fast Track Scheme and of M/s. Swan Joy Engineering Company Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 10th February 2003

No. ROC/28275/560(3)/2001/4303—Notice is hereby given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 read with Circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000 Cl. V dated 20-09-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Swan Joy Engineering Co. Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Lunar Hospital Ltd.

Cuttack-753001, the 7th February 2003

No. ROC/TS/560/4929/2994—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lunar Hospital Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

ALOK SAMANTARAI
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Creative Security Agency (Orissa) Pvt. Ltd.

Cuttack-753001, the 7th February 2003

No. ROC/TS/560/2980/2995—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Creative Security Agency (Orissa) Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

ALOK SAMANTARAI
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Associated Engineers & Erectors Pvt. Ltd.

Cuttack-753001, the 7th February 2003

No. ROC/TS/560/4659/2996—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Associated Engineers & Erectors Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

ALOK SAMANTARAI
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and Application under Fast Track Scheme and of M/s. Philab Electronics Pvt. Ltd.

Panaji, the 11th February 2003

No. 24-01621/U/s560(5)/4266—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Philab Electronics Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. AHMED KUNJU,
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003